



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 12 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2062/9-1-2020-56 टी0ए0-20

लखनऊ, 12 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-393

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 205(क) मुअरिखा, दिनांक 16 मार्च, 1875 और इस निमित्त जारी की गई अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत बड़हलगंज, जिला गोरखपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं; उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त संबंधित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 205(क) मुअरिखा, दिनांक 16 मार्च, 1875 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती

अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल संविधान के भाग 9-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत बड़हलगंज, जिला गोरखपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं।

### अनुसूची

नगर पंचायत बड़हलगंज, जिला गोरखपुर में सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र :-

<p>1-चिल्लूपार-</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-13, 14, 37, 92, 93, 94, 95, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 84, 82, 83, 84, 129, 128, 127, 126, 125, 121, 122, 123, 124.</p> <p>दक्षिणी सीमा का अराजी सं०-690, व 691,</p> <p>पूर्वी सीमा का अराजी सं०-475, 474, 476, 477, 478, 489, 480, 481, 482, 512, 513, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 603, 604, 605, 607, 608, 619, 620, 621, 623, 624, 660, 661, 662, 663, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 688, 689.</p> <p>पश्चिमी सीमा का अराजी सं०-17, 18, 225, 229, 239, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 278, 279, 280, 281, 323, 324, 325, 326, 332, 333, 334, 336, 441, 442, 443, 444, 445, 447</p>
<p>2-कृतपुरा-</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-49, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 42, 43, 47,</p> <p>पूर्वी सीमा अराजी सं०-51, 52, 53, 54, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 108,</p> <p>दक्षिणी सीमा अराजी सं०-101, 102, 84, 83, 82, 81</p>
<p>3-जाईपार-</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-10, 09, 01, 02, 03, 40, 41, 45, 46, 51, 52, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 72</p> <p>पश्चिमी सीमा अराजी सं०-185, 186, 189, 179, 180, 178, 177, 176, 20, 31, 17, 16, 15, 12, 13, 11</p> <p>दक्षिणी सीमा का अराजी सं०-181, 182, 183, 184, 187, 192, 193, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 225, 227, 231, 230, 242, 244, 246, 247, 250, 251, 253, 252, 254, 263, 265, 266, 267,</p>
<p>4-बेईली-</p> <p>दक्षिणी सीमा अराजी सं०-73, 74, 76, 77, 90, 91, 99, 102, 101, 103, 120, 121, 122, 189, 313, 314</p> <p>पश्चिमी सीमा अराजी सं०-01, 02, 03, 04, 05, 06, 176, 178, 179, 188, 190, 191, 192, 197, 198, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 211</p>
<p>5-बाछेपार-</p> <p>पश्चिमी सीमा अराजी सं०-63, 62, 61, 29, 57, 56, 55, 34, 33, 32, 30, 29, 28, 19, 01,</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-02, 03, 04, 05, 06, 42, 44, 45, 46, 93, 112, 111, 115, 116, 150, 151, 155, 156, 159, 160.</p> <p>पूर्वी सीमा अराजी सं०-160, 161, 162, 167, 168, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 215, 216</p>
<p>6-कल्यानपुर-</p> <p>पश्चिमी सीमा अराजी सं०-158, 157, 63, 59, 05, 04, 03,</p> <p>दक्षिण सीमा अराजी सं०-159, 160, 162, 163, 156, 165, 185, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 223, 226, 227,</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-01, 08, 22, 46, 48,</p> <p>पूर्वी सीमा अराजी सं०-52, 54, 55, 58, 152, 153, 154, 207, 204, 205, 229,</p>
<p>7-भैसौली-</p> <p>पश्चिमी सीमा अराजी सं०-177, 176, 175, 174, 173, 172, 41, 40, 13,</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-01, 02, 03, 04, 05, 08, 82, 84, 85, 86, 88, 89.</p> <p>पूर्वी सीमा अराजी सं०-90, 91, 99, 115, 122, 123, 124, 127, 136, 132, 130, 129, 215, 216, 218,</p>

<p>8-कोडारी-</p> <p>पश्चिमी सीमा अराजी सं०-483, 484, 494, 495, 481, 480, 479, 478, 477, 474, 476, 469, 468, 465, 464, 463, 461, 451, 450, 449, 448, 447, 443, 442, 438, 434, 435, 432, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 01,</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-01, 02, 03, 04, 75, 76, 78, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 291, 296, 303, 312, 304, 311, 315, 314, 316, 323, 324, 326, 328, 329</p> <p>पूर्वी सीमा अराजी सं०-330, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 385, 397, 396, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 636, 638, 637, 639, 645, 646, 647, 655, 436, 438, 439, 645, 90, 91, 99, 115, 122, 123, 124, 127, 136, 132, 130, 129, 215, 216, 218, 219, 220</p>
<p>9-सुरदहॉ-</p> <p>पश्चिमी सीमा अराजी सं०-86, 85, 84, 83, 82, 77, 76, 68, 06, 05, 04, 03,</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26,</p> <p>पूर्वी सीमा अराजी सं०-27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 125,126, 127, 128, 129, 130</p>
<p>10-विशुनपुरा-</p> <p>पश्चिमी सीमा अराजी सं०-75, 73, 74, 72, 71, 67, 66, 64, 63, 62, 61, 46, 45, 43, 42, 39,</p> <p>उत्तरी सीमा अराजी सं०-01, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 193, 196, 104, 108, 109, 110, 111, 135, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 163,</p> <p>पूर्वी सीमा अराजी सं०-164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 192, 195, 196, 199, 201, 202,</p>

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2062/IX-1-2020-56T.A.-20, dated December 12, 2020 :

No. 2062/IX-1-2020-56T.A.-20

*Dated Lucknow, December 12, 2020*

The following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) and in partial, modification of notification no. 205(ka) Muarikha, dated March 16, 1875 and other previous notifications issued in this behalf, for including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Badhalganj, district Gorakhpur is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Babu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

#### DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), and in partial, modification of notification no. 205(ka) Muarikha, dated March 16, 1875 and other previous

notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to include the areas specified in Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Badhalganj, district Gorakhpur for the purposes of part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in Nagar Panchayat Badhalganj, district Gorakhpur :-

<p>1. Chillupar-</p> <p>Northern Border Plot No.—13, 14, 37, 92, 93, 94, 95, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 84, 82, 83, 84, 129, 128, 127, 126, 125, 121, 122, 123, 124.</p> <p>Southern Border Plot No.—690 &amp; 691</p> <p>Eastern Border Plot No.— 475, 474, 476, 477, 478, 489, 480, 481, 482, 512, 513, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 603, 604, 605, 607, 608, 619, 620, 621, 623, 624, 660, 661, 662, 663, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 688, 689</p> <p>Western Border Plot No.—17, 18, 225, 229, 239, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 278, 279, 280, 281, 323, 324, 325, 326, 332, 333, 334, 336, 441, 442, 443, 444, 445, 447</p>
<p>2. Kritpura-</p> <p>Northern Border Plot No.—49, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 42, 43, 47,</p> <p>Eastern Border Plot No.—51, 52, 53, 54, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 108,</p> <p>Southern Border Plot No.—101, 102, 84, 83, 82, 81</p>
<p>3. Jaipar-</p> <p>Northern Border Plot No.—10, 09, 01, 02, 03, 40, 41, 45, 46, 51, 52, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 72</p> <p>Western Border Plot No.—185, 186, 189, 179, 180, 178, 177, 176, 20, 31, 17, 16, 15, 12, 13, 11</p> <p>Southern Border Plot No.—181, 182, 183, 184, 187, 192, 193, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 225, 227, 231, 230, 242, 244, 246, 247, 250, 251, 253, 252, 254, 263, 265, 266, 267,</p>
<p>4. Beili-</p> <p>Southern Border Plot No.—73, 74, 76, 77, 90, 91, 99, 102, 101, 103, 120, 121, 122, 189, 313, 314</p> <p>Western Border Plot No.—1, 02, 03, 04, 05, 06, 176, 178, 179, 188, 190, 191, 192, 197, 198, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 211</p>
<p>5. Bacchepar-</p> <p>Western Border Plot No.—63, 62, 61, 29, 57, 56, 55, 34, 33, 32, 30, 29, 28, 19, 01</p> <p>Northern Border Plot No.—02, 03, 04, 05, 06, 42, 44, 45, 46, 93, 112, 111, 115, 116, 150, 151, 155, 156, 159, 160</p> <p>Eastern Border Plot No.—160, 161, 162, 167, 168, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 215, 216</p>
<p>6. Kalyanpur-</p> <p>Western Border Plot No.—158, 157, 63, 59, 05, 04, 03,</p> <p>Southern Border Plot No.—159, 160, 162, 163, 156, 165, 185, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 223, 226, 227,</p> <p>Northern Border Plot No.—01, 08, 22, 46, 48,</p> <p>Eastern Border Plot No.—52, 54, 55, 58, 152, 153, 154, 207, 204, 205, 229,</p>
<p>7. Bhaisauli-</p> <p>Western Border Plot No.—177, 176, 175, 174, 173, 172, 41, 40, 13,</p> <p>Northern Border Plot No.—01, 02, 03, 04, 05, 08, 82, 84, 85, 86, 88, 89,</p> <p>Eastern Border Plot No.— 90, 91, 99, 115, 122, 123, 124, 127, 136, 132, 130, 129, 215, 216, 218,</p>

<p>8. Kodari-</p> <p>Western Border Plot No.—483, 484, 494, 495, 481, 480, 479, 478, 477, 474, 476, 469, 468, 465, 464, 463, 461, 451, 450, 449, 448, 447, 443, 442, 438, 434, 435, 432, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 01</p> <p>Northern Border Plot No.—01, 02, 03, 04, 75, 76, 78, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 291, 296, 303, 312, 304, 311, 315, 314, 316, 323, 324, 326, 328, 329</p> <p>Eastern Border Plot No.—330, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 385, 397, 396, 398, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 636, 638, 637, 639, 645, 646, 647, 655, 436, 438, 439, 645, 90, 91, 99, 115,122, 123, 124, 127, 136, 132, 130, 129, 215, 216, 218, 219, 220</p>
<p>9. Surdaha-</p> <p>Western Border Plot No.—86, 85, 84, 83, 82, 77, 76, 68, 06, 05, 04, 03,</p> <p>Northern Border Plot No.—01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26,</p> <p>Eastern Border Plot No.—27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 125,126, 127, 128, 129, 130,</p>
<p>10. Bisunpura-</p> <p>Western Border Plot No.—75, 73, 74, 72, 71, 67, 66, 64, 63, 62, 61, 46, 45, 43, 42, 39,</p> <p>Northern Border Plot No.—01, 06, 07, 08, 11, 12, 15, 193, 196, 104, 108, 109, 110, 111, 135, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 163</p> <p>Eastern Border Plot No.—164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 192, 195, 196, 199, 201, 202,</p>

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
*Pramukh Sachiv.*